



*Foot Drop Splint*

फूट ड्रॉप स्पलिंट

*Tablilla De Pie*

جبيرة تدلی القدم

**REF D 17/D 43**



*Foot Drop Splint*



*Foot Drop Splint  
with liner*


**USER MANUAL**

## How To Use Cómo Utilizar



कैसे उपयोग करें  
كيفية الاستخدام

1.



- Foot Drop Splint be placed in an upright position. Place the diseased foot on the foot plate of the FDS and align the contours.
- पदपात कमठी को सीधी स्थिति में रखा जाए, रोगग्रस्त पैर को फूट ड्रॉप स्पलिंट के फूट प्लेट पर रखें और आकृतियों को संरेखित करें।
- La tablilla de pie se debe colocar en posición derecha. Coloque el pie afectado en la placa de pie de la tablilla de pie y alinee el contorno .
- يتم وضع جبيرة تدلي القدم في وضع عمودي. وضع القدم المصابة على لوحة القدم بججيرة تدلي القدم وقم بمحاذاة المعالم .

2.



- Tighten the Velcro at the calf by reversing through the buckle
- बकल के माध्यम से पीछे करते हुए वेल्क्रो को पिंडलियों पर करें।
- Apriete la cinta de velcro en la pantorrilla invirtiéndola a través de la hebilla.
- قم بربط أشرطة الفيلкро على الساق من خلال عكسها عبر الإبزيم .

3.



- Tie the ankle strap tightly around the ankle so as to get proper alignment and grip.
- टखना फीते को टखने के चारों ओर कस कर बांधें ताकि उचित संरेखण और पकड़ मिल सके।
- Apriete firmemente la cinta del tobillo en tornoal tobillo para conseguir una alineación y agarre adecuados .
- اربط شريط الكاحل بإحكام حول الكاحل للحصول على المحاذاة والإحكام المناسبين .

4.



- Place the foot and splint into the shoe .Remove the laces completely or wear a slightly bigger shoe to facilitate placement.Tighten the laces and walk freely.
- पैर और कमठी को जूते के अंदर रखें। फीते को पूरी तरह से हटा दें या लगाने की अधिक सुविधा के लिए थोड़ा अधिक बड़ा जूता पहनें। फीतों को करें और आजादी से टहलें।
- Ponga el pie y la tablilla dentro del zapato. Saque los lazos o lleve un zapato ligeramente más grande para facilitar la colocación.Apriete los lazos y camine libremente.
- ضع القدم والجبيرة في الحذاء. قم بازالة الأربطة بالكامل أو ارتدي حذاء أكبر قليلاً لتسهيل عملية الوضع. اربط الأربطة وامشي بحرية .

# **Foot Drop Splint**

**English**

## **INTENDED USE :**

**Foot Drop Splint** is designed with a dorsal shell made of polypropylene with a leaf spring action to arrest the plantar flexion movement and lift the foot. It supports and stabilizes the ankle and foot in all foot drop conditions. Designed to aid in swing phase toe clearance and to reduce plantar flexion impact in the early stance.

## **CONSTRUCTION:**

Highly anatomic and perforated design. Made out of durable PP polymer. Its thin walled construction has been optimized for increased resilience and designed to be worn with the shoe. Unique leafspring action adds bounce and aids in toe clearance while walking.

Air filled bubble sheet liner ensure soft, comfortable interface with the PP shell. Hook loop bands with reverse buckle mechanism ensure strong grip of the product to the foot.

## **APPLICATIONS:**

- Prevention and correction of foot drop
- Neurological deficit
- Peripheral nerve paralysis
- Peroneal/Peritibial Nerve or Muscle damage
- Ankle or Plantar flexion contracture
- Functional Alignment and stabilization of the foot and ankle
- Post operative care
- Burn patients

## **CAUTION/RECOMMENDATION :**

- Use this product under strict guidance of a qualified doctor.
- The contours can be customized using hot air gun to improve effectiveness and comfort.

## **INSTRUCTIONS:**

- Discontinue use and seek guidance of a qualified doctor, in case of
  - Impaired sensation
  - Impaired blood flow
  - Allergy rash or itching
  - Pain increases or persists
- Consult your doctor in case of concurrent use with any other medical device.
- Misuse or improper use of the device can lead to adverse effects and decreased effectiveness.
- Follow instructions mentioned on the box carefully.
- Keep out of reach of children.

# फूट ड्रॉप स्पलिंट

Hindi

## उपयोग :

फूट ड्रॉप स्पलिंट पदतल (प्लांटर) के घुमाव संचलन को रोकने और पैर को उठाने के लिए लीफ स्प्रिंग ऐक्शन के साथ पॉलीप्रोफीलिन से बने पष्ठीय खोल से डिजाइन की गई है। यह सभी पदपात (फूट ड्रॉप) स्थितियों में टखने और पैर को सहारा देती है और स्थिरीकरण करती है। अस्थिर अवस्था को ठीक करने में सहायता के लिए और जल्द पैर जमाने में पदतल घुमाव (प्लांटर पलेक्शन) को कम करने के लिए डिजाइन की गई है।

## निर्माण:

अत्यधिक शारीरिक एवं छिद्रित डिजाइन मजबूत और टिकाऊ पीपी पॉलीमर से निर्मित है। इसकी पतली दीवारों वाली संरचना को वर्धित लचीलेपन के लिए अनुकूलित किया गया है और जूते के साथ पहने जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अनूठा लीफ स्प्रिंग एक्शन उछाल में सहायता करता है और टहलते समय पैर पंजे को ठीक करने (क्लीयरेंस) में सहायता करता है।

वायु-युक्त बुलबुले वाली शीट का लाइनर इसे मुलायम व आरामदायक, पी.पी के साथ अंतराफलक बनाता है। पौछे की ओर बकल युक्ति के साथ हुक लूप बैंड पैर पर उत्पाद की मजबूत पकड़ सुनिश्चित करते हैं।

## अनुप्रयोग :

- पदपात (पैर के अगले भाग को उठाने में अक्षमता) की रोकथाम और सुधार
- तंत्रिका संबंधी कमी
- परिसरीय तंत्रिका पक्षाधात
- बहिर्जीय / पेरीटिप्रियल (Peroneal/Peritibial) तंत्रिका या मांसपेशी क्षति
- टखने या तल का घुमाव अवकृचन
- कार्यात्मक सरेखण (लालाइनमेट) और पैर व टखने का स्थिरीकरण
- शल्ययक्रिया प्रश्चात दख्खभाल
- जले रोगी

## ▲ चेतावनी/सलाह:

- एक योग्य चिकित्सक की सलाह पर उपयोग करें।
- प्रभाविता और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए हॉट एयर गन का उपयोग करके आकृति को अनुकूलित किया जा सकता है।

## ▣ निर्देश:

- इन स्थितियों में, उपयोग बंद कर दें और एक योग्य चिकित्सक की सलाह लें:
  - दुर्बलता का अनुभव
  - रक्त प्रवाह में कमी
  - एलर्जी से लाल चकते या खुजली
  - दर्द बढ़ता है या बना रहता है
- किसी अन्य मेडिकल डिवाइस के साथ-साथ उपयोग की स्थिति में अपने चिकित्सक की सलाह लें।
- डिवाइस के दुरुपयोग या अनुचित उपयोग से प्रतिकूल प्रभाव और प्रभावशीलता में कमी उत्पन्न हो सकती है।
- बॉक्स पर वर्णित निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें।
- बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

## USO PREVISTO :

La tablilla de pie está diseñada con una cobertura dorsal hecha de polipropileno con una acción de muelle para detener el movimiento de flexión plantar y elevar el pie. Da soporte y estabiliza el tobillo y el pie en todas las afecciones de pie. Diseñado para dar ayuda en la fase de oscilación y reducir en primera instancia el impacto de la flexión plantar.

## CONSTRUCCIÓN:

Altamente anatómica y diseño perforado. Fabricada en polímero PP duradero. Su construcción de pared fina ha sido optimizada para el incremento de la resistencia y ha sido diseñado para ser llevado con el zapato puesto. El muelle de hoja única añade agarre y facilita la protección de los dedos cuando se camina.

Forro de hoja de burbujas llenas de aire garantizar suave, cómodo con la cáscara PP. Las cintas con mecanismo de hebilla invertida garantizan un agarre firme del producto al pie.

## APLICACIONES:

- Prevención y corrección de la caída de pie
- Déficit neurológico
- Parálisis de nervio periférico
- Daño en el nervio o músculo peroneal/peritibial
- Contractura de flexión plantar o de tobillo
- Alineación funcional y estabilización del pie y del tobillo
- Cuidado postoperatorio
- Pacientes con quemaduras

## ⚠ PRECAUCIÓN / RECOMENDACIÓN :

- Usar este producto bajo estricta guía de un médico.
- Los contornos pueden personalizarse usando un adhesivo por aire caliente para mejorar su eficacia y comodidad.

## 📘 INSTRUCCIONES:

- Dejar de usar y consultar con el médico, en caso de
  - Pérdida de sensibilidad
  - Alteración del flujo sanguíneo
  - Erupción cutánea o picor
  - Aumento o persistencia del dolor
- Consultar con el médico en caso de que también se esté usando otro dispositivo médico.
- El mal uso o el uso inapropiado del dispositivo puede disminuir la eficacia del mismo y producir efectos adversos.
- Seguir detenidamente las instrucciones indicadas en la caja.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

# جبيرة تدلي القدم

الإسقاط المقصود:

جبيرة تدلي القدم مصممة بخلاف ظهاري مصنوع من مادة البولي بروبلين مع تأثير نابض ورقي للإمساك بحركة اثناء أخمص القدم ورفع القدم، تدعم الجبيرة وتنشّط الكاحل والقدم في جميع حالات تدلي القدم. مصممة للمساعدة في مرحلة التأرجح لإزاحة إصبع القدم وتقليل تأثير اثناء أخمص القدم في المواقف المبكرة.

**التركيب:**

التشريجية للغاية وتصميم متعدد. مصنوعة من دامن PP البوليمر. تم تحسين بنيتها الجدارية النحيفة لزيادة القدرة على الانكماس وتصميمها ليتم ارتداها مع الحذاء. تأثير نابض ورقي فريد يضيف الارتداد ويساعد في إزاحة أصابع القدم أثناء المشي.  
طبقة رقيقة مبطنة بفقاعات مملوقة بالهواء ضمن الناعمة، واجهة مريحة مع قنفعة العصارات طلقةربط مع آلية مشبك عكس ضمان قبضة قوية من المنتج إلى القدم.

**الاستخدام:**

- منع وتقديم تدلي القدم
- العجز العصبي
- شلل الأعصاب الطرفية
- تلف العصب الشظوي أمام الطنبوب أو العضلات
- تقلصات اثناء الكاحل أو أخمص القدم
- المحاذاة الوظيفية وتنشّط القدم والكاحل
- الرعاية بعد العمليات الجراحية
- مرضى الحرائق

**الحذر او توصية:**

- استخدم هذا المنتج في ظل توجيه دقيق من طبيب مؤهل
- يمكن تعديل الحواف باستخدام بندقية هواء ساخن لتحسين الفعالية والراحة.

**ارشادات:**

- توقف عن استخدام المنتج واحصل على توجيه من طبيب مؤهل في الحالات التالية
  - القصور الحسي
  - قصور في تدفق الدم
  - طفح الأرجحية أو الحكة
  - زيادة الألم أو استمراره
- استشر الطبيب الخاص بك في حالة استخدام جهاز طبي آخر بشكل متواصل
- قد تؤدي إساءة استخدام الجهاز أو الاستخدام الخاطئ له إلى حدوث آثار عكسية
- وانخفاض فعالية الجهاز
- التزم جيداً بالارشادات المذكورة في العلبة
- احفظ الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال

English

## POLICY FOR DEFECTIVE GOODS:

All products manufactured by Tynor Orthotics (P) Limited carry one year warranty against material or manufacturing defect. Defective units must be returned to Tynor Orthotics (P) Limited through the Super Dealer concerned for replacement, along with duly filled " Product Return Form" . Liability of Tynor Orthotics (P) Limited shall be limited to the cost of product only.

Hindi

## दोषपूर्ण माल के लिए नीति :

टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लिं० द्वारा निर्मित सभी उत्पादों सामग्री या विनिर्माण दोष के खिलाफ एक साल की वारंटी हैं। दोषपूर्ण इकाइयों विधिवत भरे "उत्पाद रिटर्न फॉर्म" के साथ, प्रतिस्थापन के लिए चिंतित सुपर व्यापारी के माध्यम से टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लिं० को वापस कर देना चाहिए। टायनौर ओरथोटिक्स प्र० लिं० का दायित्व केवल उत्पाद की लागत को सीमित है।

Spanish

## DECLARACIÓN SOBRE PRODUCTOS DEFECTUOSOS :

Todos los productos fabricados por Tynor Orthotics (P) Limited tienen una garantía de Un año contra materiales defectuosos o defectos de fabricación. Las unidades defectuosas se deben devolver a TOPL a través del distribuidor a cargo de las devoluciones, junto con el formulario "Formulario de devolución de producto" debidamente llenado. La responsabilidad de TOPL se limita al coste del producto únicamente.

Arabic

## سياسة السلع المعيبة:

جميع المنتجات المصنعة من قبل شركة تاينور لتقويم العظام الخاصة المحدودة Tynor Orthotics (P) Limited تحمل ضمان لمدة عام واحد ضد عيوب التصنيع أو المواد. يجب أن تعاد الوحدات المعيبة إلى شركة تاينور لتقويم العظام الخاصة المحدودة Tynor Orthotics (P) Limited خلال الموزع المعين للاستبدال، جنباً إلى جنب مع ملء "استمارة إعادة المنتج" على نحو وافٍ. سوف تقتصر مسؤولية شركة تاينور لتقويم العظام الخاصة المحدودة على تكلفة المنتج فقط . Tynor Orthotics (P) Limited

# PRODUCT CARE



Wipe with a clean, moist, lint free fabric to clean.

**[EC] [REP]**

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
D-66386 St. Ingbert  
Germany  
tel.: +49 (0) 6894 581020  
fax: +49 (0) 6894 581021  
e-mail: info@mt-procons.com  
www.mt-procons.com

## Symbol Explanation :

- [LOT]** Batch code
- [M]** Manufacturing date
- [C]** Manufacturer
- [REF]** Catalogue number

**tynor**

**Tynor Orthotics Pvt. Ltd.**

169-170, Sec 82, Ind. Area, JLPL, Mohali-160 055, (Pb) India  
e-mail: marketing@tynorindia.com • www.tynorindia.com  
Customer Care : 0091-172-5288111

**ISO**  
9001-2008

**CRISIL**

**W.H.O.  
G.M.P.**

**ISO  
13485**

**CE**

**US FDA  
registered**

[www.tynorindia.com](http://www.tynorindia.com)